

Ref. No.: AUSFB/SEC/2023-24/217

Date: October 30, 2023

To,

National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400051, Maharashtra. NSE Symbol: AUBANK	BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai 400001, Maharashtra. Scrip Code: 540611, 958400, 974093, 974094 & 974095
--	---

Dear Sir/Madam,

Sub: Intimation of Newspaper Advertisement of Audited Financial Results of the Bank for the Quarter & Half Year ended on September 30, 2023

Pursuant to Regulation 47 and other applicable provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Audited Financial Results of the Bank for the Quarter & Half Year ended on September 30, 2023 is published in all the editions of "**Financial Express**" in English Newspaper and in Jaipur edition of "**Nafa Nuksan**" in Hindi Newspaper on Monday, October 30, 2023. The copies of the newspaper advertisements are enclosed for reference.

The above may also be accessed on the website of the Bank at the link <https://www.aubank.in/disclosures-under-regulation-46-of-the-lodr>.

This is for your information and records.

Thanking You,

Yours faithfully,

For AU SMALL FINANCE BANK LIMITED

Manmohan Parnami
Company Secretary and Compliance Officer
Membership No.: F9999
investorrelations@aubank.in

Encl: As Above

28
YEARS OF
BUILDING TRUST



CONTINUING ON THE PATH OF PROGRESS



AU Small Finance Bank Limited

(CIN: L36911RJ1996PLC011381)

Registered Office:- 19-A, Dhuleshwar Garden, Ajmer Road, Jaipur 302001, Rajasthan (INDIA)

Tel: +91-141-4110060, Fax No : +91- 141-4110090 Website: www.aubank.in

Statement of Audited Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2023

(₹ in Lakhs)				
S. No.	Particulars	Quarter ended September 30, 2023 (Refer note 3)	Quarter ended September 30, 2022 (Unaudited)	Half year ended September 30, 2023 (Audited)
1	Total Income from Operations	2,95,651.81	2,23,964.63	5,72,997.58
2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and Extraordinary items)	53,338.02	45,582.54	1,04,644.05
3	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and Extraordinary items)	53,338.02	45,582.54	1,04,644.05
4	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and Extraordinary items)	40,183.49	34,259.87	78,873.12
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	Refer Note (ii)	Refer Note (ii)	Refer Note (ii)
6	Equity Share Capital	66,822.86	66,566.67	66,822.86
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance sheet of the previous year	10,31,059.86*	7,19,911.40**	10,31,059.86*
8	Securities Premium Account	3,86,012.77	3,76,687.24	3,86,012.77
9	Net worth (Refer Note iii)	11,76,268.43	10,11,417.87	11,76,268.43
10	Outstanding Debt	5,34,412.59	6,69,510.37	5,34,412.59
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	-	-	-
12	Debt Equity Ratio (Refer Note iii)	0.26	0.35	0.26
13	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) - ((before and after exceptional item) (not annualised))			
	1. Basic:	6.02	5.27	11.82
	2. Diluted:	5.98	5.24	11.74
14	Capital Redemption Reserve	-	-	-
15	Debenture Redemption Reserve	-	-	-

* As at March 31, 2023 ** As at March 31, 2022

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of quarter and half year ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 & 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarter and half year ended Financial Results are available on the websites of the Stock Exchanges, www.nseindia.com and www.bseindia.com and of the Bank www.aubank.in.
- Information related to the total comprehensive income and other comprehensive income are not furnished as Ind AS is not yet made applicable to Bank.
- The figure for the quarter ended September 30, 2023 are balancing figure between audited figures in respect of the half year ended September 30, 2023 and the published figures of three months ended June 30, 2023 which were subject to limited review.
- Information as required pursuant to Regulation 52(4) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 Methodology for computation of the ratios is as follow:

Debt-Equity Ratio	Represents the ratio of Borrowings/ Sum of Capital and Reserves & Surplus
Net worth	Net worth represents sum of Capital and Reserves & Surplus.

For AU Small Finance Bank Limited

Sanjay Agarwal
Managing Director & CEO

Date : October 28, 2023




1800 1200 1200

Follow us on [in](#) [f](#) [t](#) [v](#) /aubankindia

28
YEARS OF
BUILDING TRUST

AU
SMALL
FINANCE
BANK
A SCHEDULED COMMERCIAL BANK

CONTINUING ON THE PATH OF PROGRESS



एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

(CIN: L36911RJ1996PLC011381)

पंजीकृत कार्यालय:- 19-A, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर 302001 राजस्थान (इंडिया)

फोन: +91-141-4110060, फैक्स: +91-141-4110090 वेबसाइट: www.aubank.in

सितंबर 30, 2023 को समाप्त हुई तिमाही एवं अर्धवार्षिक के लिए अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

(र लाखों में)

क्र. सं.	विवरण	तिमाही समाप्त सितंबर 30, 2023 (नोट (iii) देखें)	तिमाही समाप्त सितंबर 30, 2022 (अनअंकेक्षित)	अर्धवार्षिक समाप्त सितंबर 30, 2023 (अंकेक्षित)	वार्षिक समाप्त मार्च 31, 2023 (अंकेक्षित)
1	परिचालनों से कुल आय	2,95,651.81	2,23,964.63	5,72,997.58	9,23,987.25
2	अवधि हेतु शुद्ध लाभ (कर,अपवाद तथा असाधारण मदों से पूर्व)	53,338.02	45,582.54	1,04,644.05	1,86,463.68
3	अवधि हेतु शुद्ध लाभ कर से पूर्व (अपवाद तथा असाधारण मदों के बाद)	53,338.02	45,582.54	1,04,644.05	1,86,463.68
4	अवधि हेतु शुद्ध लाभ कर पश्चात (अपवाद तथा असाधारण मदों के बाद)	40,183.49	34,259.87	78,873.12	1,42,792.53
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि के लिए लाभ/ (हानि) (कर पश्चात) तथा अन्य व्यापक आयों को सम्मिलित करके (कर पश्चात))	नोट (ii) देखें	नोट (ii) देखें	नोट (ii) देखें	नोट (ii) देखें
6	समतुल्य अंश पूंजी	66,822.86	66,566.67	66,822.86	66,674.51
7	संचय (पुनर्भूत संचय छोड़कर) जैसा कि पूर्व वर्ष के लेखापरीक्षित तुलनपत्र में दर्शाया गया है	10,31,059.86*	7,19,911.40**	10,31,059.86*	10,31,059.86*
8	प्रतिभूति प्रीमियम खाता	3,86,012.77	3,76,687.24	3,86,012.77	3,80,573.24
9	शुद्ध संपत्ति (नोट iii देखें)	11,76,268.43	10,11,417.87	11,76,268.43	10,97,734.37
10	बकाया ऋण	5,34,412.59	6,69,510.37	5,34,412.59	6,29,865.21
11	बकाया प्रतिदेय अधिमान शेयर	-	-	-	-
12	ऋण इक्विटी अनुपात (नोट iii देखें)	0.26	0.35	0.26	0.34
13	प्रति शेयर अर्जन (रु 10/- प्रत्येक का) (जारी तथा बंद प्रचालनों हेतु) - (असाधारण मदों से पहले तथा बाद) (वार्षिक)				
	1. मूल:	6.02	5.27	11.82	21.86
	2. तरल:	5.98	5.24	11.74	21.74
14	पूंजी प्रतिदान रिजर्व	-	-	-	-
15	ऋण-पत्र प्रतिदान रिजर्व	-	-	-	-

* मार्च 31, 2023 को ** मार्च 31, 2022 को नोट्स -

- (i) उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) अधिनियम, 2015 के अधिनियम 33 और 52 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों में दायर किये गये तिमाही एवं अर्धवार्षिक के वित्तीय परिणामों का विस्तृत प्रारूप का एक उद्धरण है। तिमाही एवं अर्धवार्षिक के वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.nseindia.com और www.bseindia.com एवं बैंक की वेबसाइट www.aubank.in पर उपलब्ध है।
- (ii) कुल व्यापक आय और अन्य व्यापक आय से संबंधित सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है, क्योंकि Ind AS अभी तक बैंक पर लागू नहीं हुआ है।
- (iii) 30 सितंबर, 2023 को समाप्त तिमाही के आंकड़े 30 सितंबर, 2023 को समाप्त छमाही के लेखापरीक्षित आंकड़ों और 30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही के प्रकाशित आंकड़ों जो कि सीमित समीक्षा के अधीन थे, के बीच का अंतर है।
- (iv) सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) अधिनियम, 2015 के अधिनियम 52(4) के अनुसार अनुपातों की गणना के लिए कार्यप्रणाली इस प्रकार है:

ऋण इक्विटी अनुपात	उधार / पूंजी के योग और रिजर्व और अधिशेष के अनुपात का प्रतिनिधित्व करता है
शुद्ध संपत्ति	शुद्ध संपत्ति पूंजी, रिजर्व और अधिशेष के योग का प्रतिनिधित्व करता है

एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के लिए
संजय अग्रवाल
मैनेजिंग डायरेक्टर एवं सी ई ओ

दिनांक : 28 अक्टूबर, 2023

AA+ / Stable
CRISIL RATING
For Fixed Deposits

1042
Touchpoints

24
21 States + 3 UTs

28,523
Employees

1800 1200 1200

Follow us on [in](#) [f](#) [t](#) [v](#) /aubankindia